

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में आगामी त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था को अक्षुण्न बनाये रखने हेतु जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम तथा उसमें लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 04.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अर्जुन प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त कृष्ण गोपाल गुप्ता पुत्र भगवान दास गुप्ता उम्र 48 वर्ष को पुराने ठेका के सामने बहद कस्बा श्रीनगर से हिरासत में लिया जिसके कब्जे से एक सफेद बोरी में 16 क्वार्टर देशी शराब ठेका नाजायज बरामद हुआ, बरामद नाजायज शराब के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 48/2023 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 अर्जुन प्रसाद
2. का0 विवेक कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

कृष्ण गोपाल गुप्ता पुत्र भगवान दास गुप्ता उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम नि0मु0 बजरंग कालोनी कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी – 16 क्वार्टर देशी शराब ठेका नाजायज बरामद होना



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का किया गया औचक निरीक्षण, तैयारियों की समीक्षा करते हुये शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दिये गए निर्देश ।

आज दिनांक 05.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा जनपद में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने के लिये जनपद मुख्यालय के प्रमुख स्थानों (रामनगर तिराहा, राठ चुंगी, ऊदल चौक, आल्हा चौक, झलकारी बाई, लोढ़ी तिराहा, पठा तिगैला) आदि यातायात पाइंटों का भ्रमण कर स्थानीय तौर पर तैयारियों की समीक्षा की गई व यातायात पुलिस कर्मियों की मौके पर मौजदूगी की तस्दीक करते हुये ड्यूटियों को चेक किया गया ।

प्रभारी निरीक्षक यातायात को शांति व्यवस्था बनाये रखने, व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने व आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा होलिका दहन के स्थानों पर लोगों की सुविधा व सुरक्षा हेतु समुचित पुलिस/यातायात/अन्य आवश्यक प्रबंध किये गये हैं, जनपदीय पुलिस सभी जनपदवासियों से अपील करती है कि पुलिस/प्रशासन द्वारा बनायी गयी व्यवस्था का पालन करें व यातायात नियमों का पालन करते हुये पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करें व सुरक्षित रहें ।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा के समस्त पुलिस थानों/कार्यालयों में चलाया गया स्वच्छता अभियान

आज दिनांक 05.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में महोबा पुलिस के समस्त थानों/कार्यालयों एवं पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाकर थाना कार्यालय, बैरक, थाना परिसर, प्रशासनिक भवन, मेस, परिसर एवं विशेषकर खाली पड़े स्थानों पर बेतरतीब उगी हुई घास को काटा गया व गंदगी की साफ सफाई की गयी।

थानों पर कार्यरत कर्मियों द्वारा थाना परिसर के साथ-साथ बैरकों, मालखाना, मेस, थाना कार्यालय की साफ-सफाई के साथ शस्त्रों की सफाई भी की गयी साथ ही अभिलेखों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया तथा आमजनमानस को भी स्वच्छता का सन्देश देकर स्वच्छता के प्रति जागरुक किया गया।



थाना कबरई पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अवैध जुआ व सट्टा में लिप्त अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 05.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम उ0नि0 राशिद अली के द्वारा 03 नफर अभियुक्त 1.विशाल पुत्र रामदास उम्र 50 वर्ष 2.रमेश पुत्र रामसिंह 3.रुपरंग पुत्र राजवीर सिंह उम्र 25 वर्ष समस्त निवासी गण ग्राम बिलादक्षिण कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा को सार्वजनिक स्थान पर जुआँ खेलते हुए ग्राम बिलादक्षिण से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया , कब्जे से 900 रुपये व माल फड़ 300 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुए । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 38/2023 धारा 13 जुआं अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 राशिद अली
- 2.हे0कां0 वसीम अहमद
- 3.कां0 अश्वनी कुमार
- 4.कां0 शुभम जायसवाल
- 5.कां0 अजीत कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. विशाल पुत्र रामदास उम्र 50 वर्ष
2. रमेश पुत्र रामसिंह
3. रुपरंग पुत्र राजवीर सिंह उम्र 25 वर्ष समस्त निवासी गण ग्राम बिलादक्षिण कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा

बरामद सम्पत्ति का विवरण:-

जामा तलाशी से 900 रुपये व माल फड़ 300 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते



थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 75,390 रुपये बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अवैध जुआ व सट्टा में लिप्त अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 05.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित संयुक्त टीम के उ०नि० विवेक कुमार यादव व उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा कुल 07 नफर अभियुक्तगणों को काजीपुरा मैदान के पास से हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेलते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मालफड 70,300 रुपये व 5,090 रुपये जामातलाशी व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 86/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० विवेक कुमार यादव प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
3. का० रामकुमार तिवारी 4. का० देवेन्द्र कुमार यादव
5. का० दीपेन्द्र सिंह 6. का० दीपेश कुमार यादव

बरामदगी-

मालफड 70,300 रुपया व 5,090 रुपया जामातलाशी व 52 अदद ताश पत्ता

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सत्तार पुत्र छुट्टन उम्र 30 वर्ष निवासी मु० चौरसियापुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
2. आमिर उल्ला उर्फ बन्टू पुत्र नियामत उल्ला उम्र 24 वर्ष निवासी मु० पठानपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
3. चाँद खां पुत्र नूरमुहम्मद उम्र 32 वर्ष निवासी मु० चौरसियापुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
4. अरुण कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र 42 वर्ष निवासी मु० माथुरनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
5. रमेश अनुरागी पुत्र गोपाल अनुरागी उम्र 44 वर्ष निवासी मु० माथुरनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
6. उमेश कुमार पुत्र रामकुमार उम्र 25 वर्ष निवासी मु० वीरेन्द्र कॉलोनी नौगांव थाना नौगांव जनपद छतरपुर म०प्र०
7. मुनेश पुत्र जयपाल उम्र 20 वर्ष निवासी तुरना थाना जरिया जनपद हमीरपुर



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में आगामी त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम तथा उसमें लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 05.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित संयुक्त टीम के उ0नि0 राशिद अली व उ0नि0 आशिक अली द्वारा 04 नफर अभियुक्त 1. हरिप्रसाद पुत्र रामसेवक 2. संदीप पुत्र बज्रबिहारी 3. भरत प्रजापति पुत्र संतोष प्रजापति 4. रुबी पत्नी स्व0 दीपू सिंह को अवैध ठेका देशी शराब के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 39/2023, मु0अ0सं0 40/2023, मु0अ0सं0 41/2023 व मु0अ0सं0 42/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राशिद अली
2. उ0नि0 आशिक अली
3. हे0कां0 रामकरन सिंह
4. हे0कां0 वसीम अहमद
5. कां0 सुनील कुमार
6. कां0 अशोक कुमार
7. कां0 अंकुश पाल
8. कां0 शुभम जायसवाल
9. कां0 अजीत कुमार यादव
10. कां0 अंकित पटेल
11. कां0 शरद गौड
12. म0कां0 प्रतिमा सरोज

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. हरिप्रसाद पुत्र रामसेवक उम्र 50 वर्ष ग्राम बिलादक्षिण थाना कबरई महोबा
2. संदीप पुत्र बज्रबिहारी उम्र 25 वर्ष ग्राम बिलादक्षिण थाना कबरई महोबा
3. भरत प्रजापति पुत्र संतोष प्रजापति उम्र 22 वर्ष मु0 राजीवनगर कबरई महोबा
4. रुबी पत्नी स्व0 दीपू सिंह नि0ग्राम सिचौरा थाना कबरई महोबा

बरामदगी-

कुल 86 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज



जनपदीय पुलिस बल द्वारा होली एवं शब-ए-बारात पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **05.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत होलिका दहन के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा स्थानीय लोगों से वार्ता कर आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **67** ई-चालान किये गये ।

